HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)

Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265 Email :info@hisarmetal.com, Web <u>www.hisarmetal.com</u>

CIN No: L74899HR1990PLC030937

July 15, 2024

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001

Scrip Code: 590018

(Category: Permitted for Trade)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051

Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication in general public interest

Dear Sir / Madam

Please find enclosed herewith copies of the newspaper publication published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 15/07/2024.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Hisar Metal Industries Limited**

Vishesh Chugh Digitally signed by Vishesh Kumar Chugh Date: 2024/07.15 12:08:36 +05'30'

(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as Janalakshmi Financial Services Limited)., under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Ce-borrower (s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/ or realisation.

Sr. No.	I Oan No	Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/Mortgagor	13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on	Date/ Time & Type of Possession
1	30689610000619	1) Mr. Shan Mohammad (Applicant), 2) Mrs. Rizwana (Co-Applicant)	07.05.2024 ** Rs.15,82,491/- (Rupees Fifteen Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred and Ninety One Only) as on 06.05.2024	Date: 12.07.2024 Time: 10:30 P.M. Symbolic Possession

Description of Secured Asset: Area Measuring 90 Sq. Yards, Out of Khasra No 453, Situated in the Area of Village-Jalpura, Pargana & Tehsil Dadri, District Gautam Budh Nagar, U.P. Owned By Mrs. Rizwana W/o. Mr. Salim. Bounded As: East: House of Rahees, West: House of Kamruddin, North: Wide Road 15.Ft. South: Property of Other's.

	(Applicant) through its	17.04.2024 De 22.22.445/-
47939610001421	(Mother) e) Mr. Maneet Pannu, Through its Legal Guardian Mrs. Ravita (Mother) 2) Mrs. Ravita	Rs.22,22,445/- (Rupees Twenty Two Lakh Twenty Two Thousand Four Hundred and Forty Five Only) as on 15.04.2024
	(Co-Applicant)	

1.) Mr. Sandeep Tiwari

Description of Secured Asset: Entire Second Floor without Roof/Terrace Rights of Built Up Property Bearing Plot No.88, Admeasuring 70 Sq.Yards, out of Khasra No.796, Situated in the Revenue Estate of Village Nawada, Delhi State Delhi, Area Abadi known as Colony Known as Om Vihar, Phase 1 A, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Owned By Mrs. Ravita W/o. Mr. Sandeep. East: Other's Property, West: Other's Property, North: Road 12ft. Wide, South: Other's Property.

Whereas the Borrower's/Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors, mentioned herein above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrower's mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorised officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's/ Mortgagors mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.

Place: Delhi Date: 15.07.2024

Sd/- Authorised Officer, Jana Small Finance Bank Limited

JANA SMALL FINANCE BANK

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangia Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar-125005 (Haryana) Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (01662) 220265 CIN: L74899HR1990PLC030937

This is to inform that HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED (CIN L74899HR1990PLC030937) has listed company at National Stock Exchange and also Permitted for Trade at Bombay Stock Exchange (BSE) having paid up share capital of Rs. 5.40,00,000/- (Rs. Five Core Forty Lakhs Only) divided in 5400000 equity shares of face value of Rs. 10/- each. Further it is mentioned that company has never issued any other securities/bonds/ debentures etc.

This advertisement is given in general public interest.

Place: HISAR

Date:

11.07.2024

Time:

02:11 P.M.

Symbolic

Possession

Dated: 15th July, 2024

For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

UNIVERSAL AUTOFOUNDRY LIMITED

Regd. Office: B-307, Road No.16, VK.I.Area, Jaipur - 302 013 (Rajasthan) Tel: +91 0141 4109598; CIN: L27310RJ2009PLC030038; E-mail: support@ufindia.com; Website: www.ufindia.com

PUBLIC NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING

The 15th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 23rd August, 2024 at 11:00 A.M.through Video Conferencing (VC/Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by "COVID-19" General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) (Collectively referred to as MCA Circulars) and various SEBI Circularsto transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company will be sending the Notice and Annual Report only through electronic mode (Email) to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agents, Depository Participant(s). The Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be available for download from the Company's Website www.ufindia.com and the website of the BSE Limited www.bseindia.com. The instructions and the manner for participating in the remote e-voting has been provided in the Notice of AGM. In view of the above, the Members are requested to note that, if you have not registered your email address and mobile Numbers including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form. Alternatively, member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned and signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio for sending the Annual report andnotice of AGM. The above information is being issued forthe information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the MCA and SEBI Circulars as amended from time to time.

For Universal Autofoundry Limited

DIN: 00295667

Vimal Chand Jain Jaipur, India Chairman and Managing Director Date: 13th July, 2024

Senapati Bapat Marg, Lower Parel,

ecurity Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Capital Limited .(CGCL) under Securitisation And cise of powers conferred under Section 13(12) of the ued Demand Notices under section 13(2) of the said ne respective Demand Notice(s) issued to them that) to pay to CGCL, within 60 days from the publication (s) mentioned below till the date of payment and/or e said Borrower(s). As security for due repayment of

ription of secured asset ovable property)

erty having land and building bearing Plot No. 32, ds, out of Khasra No. 30, Kila No. 16/1 (2-18), Must. /illage Dabua, Tehsil Badkhal, District Faridabad as follows: East: Other's Property West: Other's outh: Road 11 Ft.

reperty bearing Shop No. 122, Block - D, 1st Floor, t., i.e., 45.89 Sq. Mts. (super built-up) construction 21.37 Sq. Mts., in the scheme known as Shukan ad at land bearing Survey No. 1008, FP No. 191, TPS na) in the Registration Sub District of Kalol, Taluka Jujarat-382721. Bounded as below: East: Shop No. Passage South: Back Side

bove secured assets under Section 13(4) of the Act ne said Borrowers are prohibited under the Act from ent of CGCL. Any person who contravenes or abets d/or penalty as provided under the Act.

fficer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)

Ground & First Floor, Survey Koramangla Inner Ring Road. llaghatta, Bangalore-560071.

know, Uttar Pradesh-226010.

AESI ACT, 2002.

Il Finance Bank Limited, by mortgaging ng Asset, whereas Jana Small Finance Act read with rule 2 of Security Interest oned in column No.2 to repay the amount on some of them for various reasons.

Amount Due in Rs. /

	Notice date	as on
of 2, y, o. n:	Notice Date:	Rs.94,13,466.91 (Rupees Ninety Four Lac Thirteen Thousand Four Hundred Sixty Six and Ninety One Paisa Only) as of 08.07.2024

Date of NPA

& Demand

hem to make payment of the aggregate e as the said amount is found payable t together with future interest and other

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा) इमेलः info@hisarmetal.com; वेबसाइटः www.hisarmetal.com **फोन:** (01662) 220067, 220367, 220738 **फैक्स**: (01662) 220265

सीआईएनः L74899HR1990PLC030937

सूचित किया जाता है कि हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन: L74899HR1990PLC030937) प्रत्येक रु. 10/- अंकित मूल्य के 5400000 इविवटी शेयरों में प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5,40,00,000/-(पांच करोड चालीस लाख रुपये मात्र) विभाजित के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी हैं और इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में व्यापार के लिए अनुमति भी दी गईं है। इसके अलावा यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने कमी भी कोई अन्य प्रतिभृति / बांड / डिबेंचर आदि जारी नहीं किया है।

यह विज्ञापन व्यापक जनहित में दिया जाता है।

स्थानः हिसार

दिनांकः 15 जुलाई, 2024

कृते हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (विशेष कुमार मुघ)

कब्जा सूचना जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिट विदित) के

प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना जारी कर ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि आगे के लागू होने वाले ब्याज तथा भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक वहन की गई अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ उनके संबंधित नामों के समक्ष वर्णित राशि ऋणधारकों को वापस लौटाने का निर्देश दिया 13(2) सचना तिथि/ कब्जा की

सं.		सह-ऋणधारक/ गारंटर/मार्टगैजर	तिथि को बकाया देयता (रु.)	तिथि⁄समय एवं प्रकार
1.	46089410000039 एवं 46089420000055	1) श्री टोनी, अब दिवंगत, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों क)श्री बसेसर लाल ख) श्रीमती दीपिका रानी, (आवेदक) 2) श्री बसेसर (सह-आवेदक) 3) श्रीमती दीपिका रानी (सह-आवेदक)	29.2.2024/ 26.2.2024 को रु. 17,07,841/- (रु. सत्तरह लाख सात हजार आठ सौ इकतालिस मात्र)	तिथिः 9.7.2024 समयः 1.10 अप. सांकेतिक कब्जा

प्रतिभृत परिसम्पत्ति का विवरण: खेवत नं. मिन खतोनी नं. 69, मिन खतोनी नं. 71, खसरा नं. 10//4, रकबा 8 कनाल 150/6534, पार्ट बकदर 3.6 मर्ले, 111 वर्ग गज, खेवत 290, खतोनी नं. 345, खसरा नं. 10//3/2 रकबा 2 कनाल, 16 मर्ले पार्ट 150/6534, पार्ट बकदर 1.3 मर्ले 39 वर्ग गज, कुल रकबा 5 मर्ले * 150 वर्ग गज, एच.बी. नं. 456, वर्ष 2017-2018 के जमाबंदी, उप-तहसील सरस्वती नगर, तहसील जगाधि, जिला यमुनानगर, हरियाणा में शामिल प्लॉट/मकान, पंजीकरण सं. 1395, तिथि 06.01.2020, स्वामीः श्रीमती दीपिका रानी, पत्नी टोनी, चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट, पश्चिमः स्ट्रीट, उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य

अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, ऊपर वर्णित तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

जैसा कि ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर्स इस बकाया राशि को वापस लौटाने में विफल रहे,

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर्स/सह-ऋणधारक/मार्टगैजर्स तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित प्रतिभृत परिसम्पत्ति/उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय जना. स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

स्थानः हरियाणा हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी कृते, जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड तिथि: 15.7.2024 जना स्मॉल फाइनांस बैंक

पंजीकृत कार्यालय: दि फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला ईनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंग्लौर-560071 शाखा कार्यालयः 16/12, 2रा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

(अनुसूचित वाणिज्य बैंक)

SAANVI ADVISORS LIMITED ("TARGET COMPANY") CIN: L74140GJ1981PLC084205

Registered Office: 304, Shoppers Plaza V, Govt. Servants Hsg. Society Ltd Opp. Municipal Market, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat-380009 IN

Website: www.saanviadvisors.in; Email: saptharishifin@gmail.com; Telephone No. 07948904153 OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 5,22,730 (FIVE LAKHS TWENTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED AND THIRTY) EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS OF SAANVI ADVISORS LIMITED BY MR. DEV SETHI (ACQUIRER-1) AND DYS ROYALS PRIVATE IMITED(ACQUIRER-2) (HEREIN AFTER JOINTLY REFER TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011")

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 in relation to the open offer made by Mr. Dev Sethi (Acquirer-1) And DYS Royals Private Limited(Acquirer-2) (Herein After Jointly Refer To As "Acquirers") For Acquisition OF 5,22,730 (Five Lakh Twenty Two Thousand Seven Hundred and Thirty) Equity shares of Rs 10/-each, to public shareholders of Saanvi Advisors Limited("Target Company").

1	Date	Friday, 12 th July,2024
2	Name of the Target Company (TC)	SAANVI ADVISORS LIMITED
3	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer of acquisition of 5,22,730 (Five Lakh Twenty-Two Thousand Seven Hundred and Thirty) Equity shares of Rs. 10/- each constituting 26% of the Equity shares capital of the Saanvi Advisors Limited by the Acquirers pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) & (4) of the SEBI(SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirers: Mr. Dev Sethi (Acquirer-1) And DYS Royals Private Limited (Acquirer-2) PAC: Nil
5	Name of the Manager to the offer	Expert Global Consultants Private Limited
6	Members of the Committee of Independent Directors	Mr. Keyoor Bakshi -Chairperson Mrs. Hinal Shah - Member
7	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the equity shares of Target Company during: a) 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer; and b) the period from the date of the Public Announcement till the date of this recommendation.
9	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members have any contracts nor relationship with the Acquirers.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	 The IDC members notes that the Offer Price at Rs. 14.90/ (Rupees Fourteen and Ninety Paisa Only Only) per Equity Share by the Acquirers has been arrived in and reasonable line with the provisions of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The IDC member's further notes that the equity shares of the Target Company are not frequently traded on the. Further IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from the shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or method of valuation. For the reasons set out here in under, as of the date of this recommendation, the IDC is of the opinion that the Open Offer price is fair & reasonable and are in accordance with the SEBI SAST Regulations, 2011.
12	Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed (a) the Public Announcement, (b) Detailed Public Statement

13 Details of Independent Advisors, if any. 14 Any other matter(s) to be highlighted None To the best of our Knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

offer their shares in the Open Offer

For on behalf of committee of Independent Directors Saanvi Advisors Limited

and (c) Letter of Offer. IDC Members have also reviewed the quantum of trading and relevant prices on the Stock Exchange platform as well as Valuation Report obtained from Registered

valuer. Based on the above, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the

Public Shareholders of the Target Company follows the requirements of the SEBI (SAST)

Regulations, 2011 and hence is fair and reasonable. The shareholders of the Target Company

are advised to independently evaluate the Offer and take informed decision whether or not to

Mr. Keyoor Bakshi (IDC-Chairperson) DIN: 00133588

प्रवेश सूचना

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सी.टी.एस. योजना में अगस्त, 2024 से प्रारम्भ हो रहे सत्र के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए रिक्त सीटों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। टेड, प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. स.	ट्रेड का नाम	सीटें	प्रशिक्षण की अवधि	प्रवेश योग्यता
1.	हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर	52	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2.	फिजियोथेरपी तकनीशियन	20	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3.	डेंटल लैब तकनीशियन	20	2 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रस्तुत विभिन्न पाठयक्रमों में रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा दाखिला शुल्क का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर देखें।

- 1. प्रमाण पत्र : पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / पीएसयू के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता है।
- 2. चयन प्रक्रिया : सभी सीटों पर दाखिले पहले आओ तथा पहले पाओ के आघार पर किए जाएंगे
- 3. आयु : उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2024 को कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 4. आवेदन कैसे करें : उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com से प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवरणिका को रुपये 200/- का नकद भुगतान करके संस्थान से भौतिक रूप से भी लिया जा सकता है।
- नोट: फॉर्म भरते समय रुपये 500/- का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क भी देय होगा।
- 5. छात्रवृत्ति : प्रवेश के पश्चात् आय प्रमाण पत्र रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र भारत सरकार की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने
- 6. बस-पास स्विधा : सरकार छात्रों को 100 रुपये प्रति माह की दर से रियायती बस-पास सुविधा प्रदान करती है, यह दिल्ली में चलने वाली सभी एसी और गैर-एसी बसों में मान्य है।
- 7. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.nitcindia.com पर लॉग ऑन करें।
- 8. प्रवेश की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2024

निदेशक

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

30-34, सेवक पार्क, द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन, पिलर नं.-771 के सामने, मेन नजफगढ रोड, नई दिल्ली – 110059 व्हाट्स ऐप हेल्पलाइन : 9315138815, 011—42828067 (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) 🛎

PRE OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED AND CORRIGENDUM TO THE DETAILD PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF

Date: 12" July, 2024 Place: Ahmedabad

VIKALP SECURITIES LIMITED

CIN: L68200UP1986PLC007727

(Regd. Office: 25/38 Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh, India, 208001) **Tel No.** +91 9336810132 | **Website:** www.vikalpsecurities.com | **E-Mail:** vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Open offer for acquisition of up to 7,93,500 (Seven Lakh Ninety Three Thousand Five Hundred) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10.00 each ("Equity Shares"), representing 26.00% of the voting share capital of VIKALP SECURITIES LIMITED ("Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) at an offer price of ₹ 25.00/- (Rupees Twenty Five Only), with an intension to acquire control over the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(2) and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof (the "SEBI (SAST) Regulations") (the "Open Offer" or "Offer").

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations and Corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Interactive Financial Services Limited (The "Manager to the Offer") on behalf of Deepakbhai Patel (Acquirer No.1), Kamuben Patel (Acquirer No.2) and Priyam Shah (PAC) in respect of the open offer to the Equity Shareholders of Vikalp Securities Limited (hereinafter referred as the "Target Company"). This Pre Offer Advertisement cum Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement Dated April 15, 2024 ("PA"); (b) Detailed Public Statement ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English and Gujarati), Jansatta (Hindi), Pratahkal (Marathi) (Maharashtra edition) and Aaj (Hindi) (Kanpur Edition) On April 23, 2024; (c) Draft Letter of Offer dated April 30, 2024 (DLOF); (d) Letter of Offer along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement dated July 05, 2024 (LOF). This Advertisement cum Corrigendum is being published in all newspaper in which the DPS was published.

The capitalised terms used in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum have the meaning assigned to them in the LOF, unless otherwise specified. 1. The Offer Price is being ₹ 25.00/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity share of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1) of SEBI

- (SAST) Regulations. There has been no revision in the Offer Price. The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on July 11, 2024 in the same newspapers
- where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making
- such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. July 02, 2024 has been completed through Registered post on July 09, 2024 and E-mail on July 09, 2024. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, PAC and
- Promoters) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. Please note that a copy of Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement along with Form SH-4 Securities Transfer Form) is also available on website of SEBI at (www.sebi.gov.in). Registered/unregistered shareholders if they may also apply on the form of acceptance download from the SEBI website. Further in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance cum acknowledgment, the application can be made on plain paper along with the following details and to be sent to Registrar to the offer: Name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and
- other relevant documents as mentioned in Point 8.1.15 and 8.1.16 of the LoF. The Procedure for tendering Equity Shares in the Offer are as below:
- In case the shares are held in physical form:

Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.1.16 (page 26) of the LoF.

In case the shares are held in demat form

- Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.1.15 (page 26) of the LoF. Public Shareholders can send/deliver the Form of Acceptance cum acknowledgement duly signed along with all the relevant documents at registered office of the Registrar (Bigshare Services Private Limited) at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093, Maharashtra, India. during the working hours on or before the date of closure of the Tendering period in accordance with the procedure as set out in Letter of Offer. For further details, the Public Shareholders are requested to refer to Part 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement" on page 24 of the LoF.
- In accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was filed to SEBI on April 30, 2024. The Final Observations received from SEBI dated June 28, 2024 bearing reference no SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/21368/1 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulation. Material updates since the date of the Public Announcement:
- There are no material updates in relation to this open offer since the date of Public Announcement
- As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge and belief of the Acquirers and PAC, there are no statutory or other approvals required to acquire the Equity Shares by the Acquirers along with the PAC validly tendered pursuant to this Open Offer. However, in case of any statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals. Revised Schedule of Activity is as follow:

Activity	Tentative Schedule		Revised Schedule	
Activity	Day*	Date*	Day	Date
Date of Public Announcement	Monday	April 15, 2024	Monday	April 15, 2024
Date of publishing of Detailed Public Statement	Tuesday	April 23, 2024	Tuesday	April 23, 2024
Last date of filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday	April 30, 2024	Tuesday	April 30, 2024
Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday	May 15, 2024	Wednesday	May 15, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Wednesday	May 22, 2024	Friday	June 28, 2024
Identified Date	Monday	May 27, 2024	Tuesday	July 2, 2024
Date by which Letter of Offer to be dispatched to the Shareholders	Monday	June 3, 2024	Tuesday	July 9, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Last date by which the committee of Independent Directors of the Target Company shall give its recommendations	Thursday	June 6, 2024	Friday	July 12, 2024
Advertisement of schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company at its registered office	Friday	June 7, 2024	Monday	July 15, 2024
Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday	June 10, 2024	Tuesday	July 16, 2024
Date of Expiration of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday	June 24, 2024	Tuesday	July 30, 2024
Last date of communicating of rejection / acceptance and payment of consideration for accepted tenders / return of unaccepted shares	Monday	July 8, 2024	Tuesday	August 13, 2024
Issue of post offer advertisement	Monday	July 1, 2024	Tuesday	August 6, 2024
Last date for filing of final report with SEBI	Monday	July 15, 2024	Wednesday	August 21, 2024

- 10. Other Information:
 - The Acquirers and PAC accept full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and also for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations.
 - A copy of this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in.
- **ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER:** INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Address: 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Manekbag, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India **Tel No.:** +079 49088019 | **Mob.** : +91-9898055647 | **Web Site** : www.ifinservices.in | **Email** : mbd@ifinservices.in

Contact Person: Ms. Jaini Jain **SEBI Reg No:** INM000012856

FOR AND ON BEHALF OF ACQUIRERS AND THE PAC: Deepakbhai Patel (Acquirer No. 1), Kamuben Patel (Acquirer No. 2) and Priyam Shah (PAC)

Place: Ahmedabad Date: July 15, 2024 जना स्माल फाइनेंस बैंक (अनुस्चित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क से आगे. चल्लाघटटा. बेंगलरू-560071

क्षेत्रीय शाखा कार्यालय : 16/12, 2सरा तल, डब्ल्यु.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानितयों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभत लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभत्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कॉलम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थी, किन्तू उनमें से कछ के पास विभिन्न कारणों से सचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1117 (11 101 01 11 11			
क्र. सं.	कर्जदार/सह- कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि एवं मांग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
	 मेसर्स अतर सिंह कैटरर्स, इसके मालिक श्री राज कुमार (आवेदक) द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री राज कुमार (कर्जदार), श्रीमती सविता रानी (सह-कर्जदार), श्री अतर सिंह (गारंटर) 	乗ण खाता सं. 45138640001540 तथा 45139660002272 乗ण गशि : 天. 60,19,828/- 天. 6,00,000/-	प्रितभूत परिसंपित्तयों का विवरणः भाग-'ए' – बंधक चल संपित्तः कंपनी यानी मेसर्स अतर सिंह कैटरर्स के व्यावसायिक परिसर, हाउस नंबर IX/3944, खसरा नंबर 167, गली नंबर 6, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 के लेखा पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और प्राप्य और पुस्तक ऋणों पर पहला प्रभार। भाग-'बी'ः बंधक अचल संपित्त – अनुसूची संपित्तः अचल निर्मित संपित्त हाउस नंबर IX/3944 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, अंतिम मंजिल तक छत के साथ, खसरा नंबर 167 में से, आबादी गली नंबर 6, अजीत नगर, गांधी नगर, गांव सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-31 के क्षेत्र में स्थित, सीमाएंः पूर्वः श्री जवाहर लाल की संपित्त, पश्चिमः गली, उत्तरः अन्य की संपित्त, दक्षिणः अन्य की संपित्त।	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 09.07.2024	08.07.2024 तक 60,86,372/- (साठ लाख छियासी हजार तीन सौ बहत्तर रुपये मात्र)
	 मेसर्स भाटी क्लॉथ हाउस, इसके मालिक श्री चमन द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री चमन (कर्जदार), श्री जगदीश फतेह (गारंटर), श्री नकुल (गारंटर) 	ऋण खाता सं. 31289440000195 ऋण राशि : रु. 3,00,000/-	प्रितिभूत संपत्तियों का विवरणः भाग-'ए' – बंधक चल संपत्तिः कंपनी यानी मेसर्स भाटी क्लॉथ हाउस के व्यावसायिक परिसर गाँव छायंसा, सरकारी स्कूल के पास, बल्लभगढ़, हरियाणा-121004 के खाता पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और प्राप्य और पुस्तक ऋणों पर पहला प्रभार। भाग-'बी'ः बंधक अचल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – संपत्ति विवरणः क्षेत्र 241 वर्ग गज माप, खेवत/खाता संख्या 752/1055, मु. संख्या 88, किला संख्या 22/1/1, 22/1/3, 22/2/10, 22/2/1, मु. नं.119, किला नं.22/2, 22/4, 23/2, मु. नं.129, किला नं.2/2, 9/2, 12/2, गांव छांयसा उप तहसील मोहना जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, श्री जगदीश, पुत्र श्री फतेह सिंह के स्वामित्व में।	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 09.07.2024	08.07.2024 तक 3,68,237/- (तीन लाख अड़सट हजार दो सौ सैंतीस रुपये मात्र)
	 श्री धर्मवीर सिंह चिल्लर, मेसर्स धर्मवीर डेयरी के मालिक (कर्जदार), श्री आकाश चिल्लर (गारंटर), श्रीमती सत्या वती (गारंटर) 	乗ण खाता सं. 45268640000842 45269660002127 45269660002114 45269410000026 45268640000839 乗ण 礼訳: お. 63,20,193/- お. 5,10,000/- む. 1,25,000/- む. 15,00,000/- む. 2,00,000/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः भाग-'ए' – बंधक चल संपत्तिः कंपनी यानी श्री धर्मवीर सिंह छिल्लर, मेसर्स धर्मवीर डेयरी के मालिक के व्यावसायिक परिसर, खसरा नं.146-3-9, रंगपुरी, रुचि विहार, सीएनजी पंप के पास, दिल्ली-110070 के लेखा पुस्तकों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और प्राप्य और पुस्तक ऋणों पर पहला प्रभार। भाग-'बी'ः गिरवी रखी गई अचल संपत्ति – अनुसूचित संपत्ति – संपत्ति का विवरणः निर्मित संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 286 वर्ग गज है, खसरा संख्या 141 में से, नई दिल्ली के राजपुर खुर्द गांव की आबादी में स्थित, श्री आकाश छिल्लर, पुत्र श्री धर्मवीर सिंह छिल्लर के स्वामित्व में है।	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 09.07.2024	08.07.2024 तक 73,36,377/- (तिहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये मात्र)
	1) श्री अमित बंसल (आवेदक), 2) श्रीमती पूनम (सह-आवेदक)	ऋण खाता सं. 47939420001407 ऋण राशि : रु.19,90,000/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः गिरवी रखी गई अचल संपत्ति – अनुसूचित संपत्तिः अचल संपत्ति प्लॉट संख्या 254 पर मकान के हिस्से का समस्त भाग, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, खसरा संख्या 459, कवर्ड एरिया 70 वर्ग गज, गांव अगरौला, शिव मंदिर के पास, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित, श्री अमित बंसल, पुत्र इंद्र पाल के स्वामित्व में, सीमाएंः पूर्वः राजू का घर, पश्चिमः आयुष का घर, उत्तरः दूसरे का घर, दक्षिणः सड़क 10 फीट।	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 09.07.2024	08.07.2024 तक 20,41,142/- (बीस लाख इकतालिस हजार एक सौ बयालीस रुपये मात्र)
	1) श्रीमती रिश्म गुप्ता (आवेदक),2) श्री मुकेश कुमार (सह-आवेदक)	ऋण खाता सं. 45129420002063 ऋण राशि : रु.37,00,000/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः बंधक अचल संपत्ति - अनुसूचित संपत्तिः पूर्वी/पीछे का हिस्सा दूसरी मंजिल, बिना छत/टेरेस अधिकारों के, साथ में सामान्य प्रवेश द्वार, रास्ता और भूतल से आगे की ओर सीढ़ियां, फ्रीहोल्ड बिल्टअप संपत्ति नंबर 14, ब्लॉक-ई में, 100 वर्ग गज का क्षेत्रफल, खसरा संख्या 262/258/217/4/3 में से, उक्त संपत्ति के तहत भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ, आदर्श नगर एक्सटेंशन, डेयरी रोड, दिल्ली-33, राज्य दिल्ली के रूप में ज्ञात ग्राम भरौला कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, इसका स्वामित्व श्रीमती रिश्म गुप्ता, पत्नी मुकेश कुमार के पास है। इसकी सीमाः पूर्वः अन्य संपत्ति संख्या ई-15,	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 09.07.2024	08.07.2024 तक 37,69,062/- (सैंतीस लाख उनहत्तर हजार बासठ रुपये मात्र)

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह–कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम नं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभृति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंशियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संव्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।

पश्चिमः उक्त संपत्ति संख्या ई-14 का शेष भाग, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः डेयरी रोड।

प्रतिभृत संपत्तियों का विवरणः बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्तिः अचल

संपत्ति क्षेत्रफल 50 वर्ग गज का समस्त भाग, खसरा संख्या 1414 मिन में से, लोनी गांव

में, सितारा मस्जिद के पास, मुस्तफाबाद कॉलोनी, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश की आबादी में स्थित। इसका स्वामित्व श्रीमती मोमिना उम्मेद, पत्नी श्री उम्मेद के

पास है। इसकी सीमाः पूर्वः फरीद का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः बंगाली का

प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्तिः अचल संपत्ति

मुस्तिकल नंबर 30, किला नंबर 19(8-0) का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 27 का पश्चिमी भाग,

क्षेत्रफल 27.8 वर्ग गज, वर्तमान नगर निगम नंबर 420/379, वाका मौजा डबुआ, तहसील

बड़खल, जिला फरीदाबाद में स्थित है। इसका स्वामित्व श्री सीताराम, पत्नी लाला राम के पास

प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्तिः अचल

संपत्ति प्लॉट नंबर सी-9/6 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर, फ्लैट नंबर

एलजीएफ-1 स्वामित्वः श्रीमती दयावती, पत्नीः श्री सत्य प्रकाश कश्यप। सीमाः पूर्वः अन्य

की संपत्ति, पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः अन्य की संपत्ति।

है। इसकी सीमाः पूर्वः प्लॉट, पश्चिमः अन्य, उत्तरः रास्ता 15 फीट, दक्षिणः अन्य

प्लॉट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी गली।

तिथि : 15.07.2024 स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे.

⁶ | 1) श्री सलमान

1) श्री सीताराम

(आवेदक),

2) श्रीमती शैलेंद्र

8 1) श्री सत्य प्रकाश

2) श्रीमती दयावती

(सह-आवेदक)

कश्यप (आवेदक),

(सह-आवेदक)

(आवेदक),

2) श्रीमती मोमिना उम्मेद

(सह-आवेदक)

ऋण खाता सं.

30688240000439

ऋण राशि :

₹.2,50,000/-

ऋण खाता सं.

30419610000536

ऋण राशि :

₹.15,10,000/-

ऋण खाता सं.

30809610000088

ऋण राशि :

₹.16,20,000/-

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

Chandigarh

एनपीए की तिथि

02.07.2024

सूचना की

तिथि:

09.07.2024

एनपीए की तिथि

02.07.2024

सूचना की

09.07.2024

एनपीए की तिथि

02.07.2024

सूचना की

08.07.2024 तक

रु. 2,26,792/-

(दो लाख छब्बीस

हजार सात सौ बानबे

रुपये मात्र)

08.07.2024 तक

15,06,970/-

रुपये (पंद्रह लाख छ:

हजार नौ सौ सत्तर

रुपये मात्र)

08.07.2024 तक

₹. 16,59,294/-

(सोलह लाख उनसठ

हजार दो सौ चौरानबे

रुपये मात्र)

www.readwhere.com